



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122024-259655  
CG-DL-E-27122024-259655

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1034]  
No. 1034]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2024

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/14/2024.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 36 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियमों के विनियम के 134 के उपविनियम (10) के उपबंधों के अनुसरण में जन साधारण की जानकारी के लिए ऐसे नामों (वर्णानुक्रम में), सदस्यता संख्याओं और ऐसे सदस्यों के स्थानों को अनुसूचित करती है, जो संस्थान की पच्चीसवीं प्रादेशिक परिषदों के लिए निर्वाचित हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता संख्या	स्थान
1.	सीए. अग्रवाल राजेश राधेशाम, एफसीए	122274	पुणे
2.	सीए. अग्रवाल विमल कुमार, एफसीए	402808	भयंदर
3.	सीए. अजमेरा सौरभ, एफसीए	166931	मुंबई

4.	सीए. चांडक पीयूष प्रेमसुख, एफसीए	122921	नाशिक
5.	सीए. धमनकर रेखा विवेक, एफसीए	105162	पुणे
6.	सीए. धामने अभिषेक शशिकांत, एफसीए	135108	पुणे
7.	सीए. घाणेकर मंगेश अविनाश, एफसीए	149885	ठाणे
8.	सीए. जैन श्वेता जयंत, एफसीए	122933	मीरा रोड
9.	सीए. जैन विजेंद्र, एफसीए	432465	भयंदर
10.	सीए. जिवानी ईश्वरकुमार रामजीभाई, एफसीए	140066	सूरत
11.	सीए. कला जयेश उमेदमल, एफसीए	101686	मुंबई
12.	सीए. केडिया पिंकी, एफसीए	059969	ठाणे
13.	सीए. निकम संजय ज्ञानेश्वर, एफसीए	107170	नवी मुंबई
14.	सीए. पटेल रिकिन अल्केशभाई, एफसीए	158611	वडोदरा
15.	सीए. साबू कमलेश रामप्रसाद, एफसीए	112543	ठाणे
16.	सीए. सागलानी जितेन्द्र मनसुखलाल, एफसीए	116081	नागपुर
17.	सीए. सैया केतन दामजी, एफसीए	049176	मुंबई
18.	सीए. सावला जीनल केनिल, एफसीए	130322	मुंबई
19.	सीए. शाह बिशन रमेशचंद्र, एफसीए	102444	अहमदाबाद
20.	सीए. शाह फेनिल राजेंद्र, एफसीए	135229	अहमदाबाद
21.	सीए. शाह राकेश कुमार, एफसीए	049149	मुंबई

## 2. दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता संख्या	स्थान
1.	सीए. अभिषेक एम, एफसीए	226622	चेन्नई
2.	सीए. अरुण अय्यमपालयम वेंकटेशन, एफसीए	214530	सलेम
3.	सीए. भानु नारायण राव वाई वी, एफसीए	028997	सिकंदराबाद
4.	सीए. चेंगल रेड्डी रामिरेड्डीगरी, एफसीए	221424	हैदराबाद
5.	सीए. दीपा वर्गीस, एफसीए	209032	कोच्चि
6.	सीए. दीपक लड्डा, एफसीए	223832	हैदराबाद
7.	सीए. हेगडे प्रमोद रामामोहन, एफसीए	235160	बेंगलुरु
8.	सीए. मांडवा सुनील कुमार, एफसीए	217061	हैदराबाद
9.	सीए. पम्पन्ना बी ई, एफसीए	220424	बेंगलुरु
10.	सीए. राजेश एस, एफसीए	231027	पोल्लाची
11.	सीए. रेखा यू.एस., एफसीए	246384	चेन्नई
12.	सीए. रेवती एस रघुनाथन, एफसीए	200052	चेन्नई
13.	सीए. सुब्बा राव मुप्पाला, एफसीए	205386	गुंटूर
14.	सीए. यारा तिरुपथैया, एफसीए	025911	हैदराबाद

### 3. पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता संख्या	स्थान
1.	सीए. अग्रवाल हरि राम, एफसीए	057625	कोलकाता
2.	सीए. अग्रवाल मयूर, एफसीए	302458	कोलकाता
3.	सीए. महेश्वरी आदित्य कुमार, एफसीए	061237	सिलीगुड़ी
4.	सीए. सुतार बिसवोरंजन, एफसीए	066708	भुवनेश्वर
5.	सीए. तुलसयान विष्णु कुमार, एफसीए	061953	कोलकाता

### 4. मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता संख्या	स्थान
1.	सीए. अग्रवाल दिनेश कुमार, एफसीए	076332	बिलासपुर
2.	सीए. अग्रवाल विजय कुमार, एफसीए	097423	जयपुर
3.	सीए. गांधी निर्भीक, एफसीए	423646	भीलवाड़ा
4.	सीए. गोयल अंकुर, एफसीए	412399	कानपुर
5.	सीए. गुप्ता अंकुर कुमार, एफसीए	411753	जयपुर
6.	सीए. गुप्ता नितिन, एफसीए	079174	गाज़ियाबाद
7.	सीए. गुप्ता राजीव, एफसीए	401237	मेरठ
8.	*सीए. गुप्ता रुचि, एफसीए	514031	जयपुर
9.	सीए. जैन आनंद, एफसीए	427705	इंदौर
10.	सीए. जैन अंकुश, एफसीए	437653	इंदौर
11.	सीए. कोठारी धवल, एफसीए	404729	जोधपुर
12.	सीए. तिवारी जयेंद्र कुमार, एफसीए	531932	गाज़ियाबाद

\*माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16234/2024 के परिणाम के अधीन।

### 5. उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता संख्या	स्थान
1.	सीए. अग्रवाल संगम कुमार, एफसीए	516131	दिल्ली
2.	सीए. अग्रवाल गौरव, एफसीए	532594	दिल्ली
3.	सीए. बहल सचिन, एफसीए	520161	दिल्ली
4.	सीए. बकाई सना, एफसीए	508252	नई दिल्ली
5.	सीए. चुघ नितिश कुमार, एफसीए	512742	फरीदाबाद

6.	सीए. गोयल हितेश, एफसीए	503976	मंडी गोबिंदगढ़
7.	सीए. जगस जगजीत सिंह, एफसीए	512338	दिल्ली
8.	सीए. जैन वैभव, एफसीए	515700	नई दिल्ली
9.	सीए. मल्होत्रा नव्या, एफसीए	539685	नई दिल्ली
10.	सीए. राजा अभिषेक, एफसीए	506930	दिल्ली
11.	सीए. सिंह अजीत कुमार, एफसीए	536976	दिल्ली
12.	सीए. यादव रत्न सिंह, एफसीए	094845	नई दिल्ली

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग आफिसर और सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./851/2024-25]

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2024

(Chartered Accountants)

**No. 54-EL(1)/14/2024.**—In pursuance of provisions of sub-regulation (10) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with rule 36 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify for general information the names (in alphabetical order), membership numbers and places of the members, who have been elected to the Twenty Fifth Regional Councils of the Institute as given below:-

#### 1. Western India Regional Council

Sl. No.	Names	Membership No.	Place
1.	CA. Agrawal Rajesh Radhesham, FCA	122274	Pune
2.	CA. Agrawal Vimal Kumar, FCA	402808	Bhayandar
3.	CA. Ajmera Sourabh, FCA	166931	Mumbai
4.	CA. Chandak Piyush Premasukh, FCA	122921	Nashik
5.	CA. Dhamankar Rekha Vivek, FCA	105162	Pune
6.	CA. Dhamne Abhishek Shashikant, FCA	135108	Pune
7.	CA. Ghanekar Mangesh Avinash, FCA	149885	Thane
8.	CA. Jain Shweta Jayant, FCA	122933	Mira Road
9.	CA. Jain Vijendra, FCA	432465	Bhayandar
10.	CA. Jivani Ishwarkumar Ramjibhai, FCA	140066	Surat
11.	CA. Kala Jayesh Umedmal, FCA	101686	Mumbai
12.	CA. Kedia Pinki, FCA	059969	Thane
13.	CA. Nikam Sanjay Dnyaneshwer, FCA	107170	Navi Mumbai
14.	CA. Patel Rikin Alkeshbhai, FCA	158611	Vadodara
15.	CA. Saboo Kamlesh Ramprasad, FCA	112543	Thane
16.	CA. Saglani Jitendra Mansukhlal, FCA	116081	Nagpur
17.	CA. Saiya Ketan Damji, FCA	049176	Mumbai
18.	CA. Savla Jeenal Kenil, FCA	130322	Mumbai
19.	CA. Shah Bishan Rameshchandra, FCA	102444	Ahmedabad
20.	CA. Shah Fenil Rajendra, FCA	135229	Ahmedabad
21.	CA. Shah Rakesh Kumar, FCA	049149	Mumbai

**2. Southern India Regional Council**

Sl. No.	Names	Membership No.	Place
1.	CA. Abhishek M, FCA	226622	Chennai
2.	CA. Arun Ayyampalayam Venkatesan, FCA	214530	Salem
3.	CA. Bhanu Narayan Rao Y V, FCA	028997	Secunderabad
4.	CA. Chengal Reddy Ramireddygar, FCA	221424	Hyderabad
5.	CA. Deepa Varghese, FCA	209032	Kochi
6.	CA. Deepak Ladda, FCA	223832	Hyderabad
7.	CA. Hegde Pramod Ramamohan, FCA	235160	Bengaluru
8.	CA. Mandava Sunil Kumar, FCA	217061	Hyderabad
9.	CA. Pampanna B E, FCA	220424	Bengaluru
10.	CA. Rajesh S, FCA	231027	Pollachi
11.	CA. Rekha U S, FCA	246384	Chennai
12.	CA. Revathi S Raghunathan, FCA	200052	Chennai
13.	CA. Subba Rao Muppala, FCA	205386	Guntur
14.	CA. Yarra Tirupathaiah, FCA	025911	Hyderabad

**3. Eastern India Regional Council**

Sl. No.	Names	Membership No.	Place
1.	CA. Agarwal Hari Ram, FCA	057625	Kolkata
2.	CA. Agrawal Mayur, FCA	302458	Kolkata
3.	CA. Maheshwari Aditya Kumar, FCA	061237	Siliguri
4.	CA. Sutar Bisworanjan, FCA	066708	Bhubaneswar
5.	CA. Tulsyan Vishnu Kumar, FCA	061953	Kolkata

**4. Central India Regional Council**

Sl. No.	Names	Membership No.	Place
1.	CA. Agrawal Dinesh Kumar, FCA	076332	Bilaspur
2.	CA. Agrawal Vijay Kumar, FCA	097423	Jaipur
3.	CA. Gandhi Nirbhik, FCA	423646	Bhilwara
4.	CA. Goyal Ankur, FCA	412399	Kanpur
5.	CA. Gupta Ankur Kumar, FCA	411753	Jaipur
6.	CA. Gupta Nitin, FCA	079174	Ghaziabad
7.	CA. Gupta Rajeev, FCA	401237	Meerut
8.	*CA. Gupta Ruchi, FCA	514031	Jaipur
9.	CA. Jain Anand, FCA	427705	Indore
10.	CA. Jain Ankush, FCA	437653	Indore
11.	CA. Kothari Dhaval, FCA	404729	Jodhpur
12.	CA. Tiwary Jayendra Kumar, FCA	531932	Ghaziabad

\* Subject to the outcome of S.B. Civil Writ Petition No.16234/2024, Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench.

**5. Northern India Regional Council**

Sl. No.	Names	Membership No.	Place
1.	CA. Aggarwal Sangam Kumar, FCA	516131	Delhi
2.	CA. Aggrawal Gaurav, FCA	532594	Delhi
3.	CA. Bahl Sachin, FCA	520161	Delhi
4.	CA. Baqai Sana, FCA	508252	New Delhi
5.	CA. Chugh Nitish Kumar, FCA	512742	Faridabad
6.	CA. Goyal Hitesh, FCA	503976	Mandi Gobindgarh
7.	CA. Jags Jagjeet Singh, FCA	512338	Delhi
8.	CA. Jain Vaibhav, FCA	515700	New Delhi
9.	CA. Malhotra Navya, FCA	539685	New Delhi
10.	CA. Raja Abhishek, FCA	506930	Delhi
11.	CA. Singh Ajit Kumar, FCA	536976	Delhi
12.	CA. Yadav Rattan Singh, FCA	094845	New Delhi

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./851/2024-25]